

इस उपाय के टेक्स्ट को <http://voterguide.sos.ca.gov/> पर राज्य के सचिव की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

- 2024 के आरंभ करते हुए, कैप-एंड-ट्रेड राजस्व एक रिजर्व फंड में संचित होगा।
- इन कैप-एंड-ट्रेड राजस्वों का तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि दो-तिहाई बहुमत से विधान-मंडल द्वारा ऐसा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- ऐसी किसी भी अनुमति की प्रभावी तिथि को, यह आवश्यकता कि इस रिजर्व फंड में संचित होने वाले नये राजस्व की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- 2024 से आरंभ करते हुए, निर्माण और शोध व विकास में प्रयुक्त उपकरण के लिए निर्धारित कर छूट सहित, निर्धारित

कर छूट को उस समय तक निलंबित किया जाएगा जब तक ऐसी किसी अनुमति की प्रभावी तिथि नहीं आती है।

राजकीय व स्थानीय सरकारी राजकोषीय शुद्ध प्रभाव के बारे में विधायी विश्लेषक का सारांश:

- 2024 से आरंभ करते हुए निर्माण संबंधी और कुछ अन्य उपकरण की बिक्री से प्राप्त राज्य बिक्री कर राजस्व में संभावित अस्थायी वृद्धि। यह राशि बिना किसी वृद्धि से लेकर प्रतिवर्ष कुछ सौ मिलियन डॉलर तक हो सकती है।
- राजकीय व स्थानीय कार्यक्रमों को प्रदान किए जाने वाले कैप-एंड-ट्रेड फंडिंग के मिश्रण में संभावित परिवर्तन।

ACA 1 (प्रस्ताव 70) पर विधान मंडल द्वारा दिए गए अंतिम मत
(संकल्प अध्याय 105, 2017 के कानून)

सीनेट: समर्थन करने वाले 27 समर्थन न करने वाले 13

असेंबली: समर्थन करने वाले 59 समर्थन न करने वाले 11

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

राज्यका कैप-एंड-ट्रेड कार्यक्रम

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों को सीमित करने का था।

California में उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों (GHG) की मात्रा को कम करने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। GHG—जैसे कार्बन डाइऑक्साइड—वैश्विक जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं और विभिन्न स्रोतों से आती हैं, जिनमें गैसोलीन-चलित कारें और औद्योगिक गतिविधियां शामिल हैं। GHG को कम करने के लिए एक California कार्यक्रम को "कैप-एंड-ट्रेड" के नाम से जाना जाता है। 2012 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत राज्य GHG को उत्सर्जित करने के लिए सीमित संख्या में परमिट जारी करता है। GHG उत्सर्जन की बड़ी मात्रा के लिए जिम्मेदार कुछ कंपनियों को GHG के प्रत्येक टन का उत्सर्जन करने के लिए एक परमिट प्राप्त करनी होगा। राज्य कुछ उद्योगों को आधी परमिट निःशुल्क देता है और दूसरे आधे हिस्से को नीलामी में बेचता है। हाल ही का राज्य का कानून 2030 के माध्यम से California में कैप-एंड-ट्रेड को संचालित करने की अनुमति देता है।

संग्रह किए गए राजस्व को विभिन्न किस्म के कार्यक्रमों में उपयोग किया गया। कैप-एंड-ट्रेड की नीलामियों से एकत्र

राजस्व को राज्य की निधि में जमा किया जाता है, जिसे ग्रीनहाउस गैस कटौती निधि (GGRF) कहा जाता है। राज्य यह निर्धारित करता है कि GGRF में पैसा कैसे खर्च करना है, आमतौर पर वार्षिक बजट प्रक्रिया के माध्यम से। निधि में धन आम-तौर पर GHG को कम करने के लिए राज्य और स्थानीय कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, हमारा अनुमान है कि राज्य 2017-18 में विभिन्न कार्यक्रमों पर GGRF से करीब \$3 बिलियन खर्च करेगा। राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में बहुमत से पारित बिल के साथ GGRF में से पैसा खर्च कर सकता है।

राज्य बिक्री कर से कुछ व्यावसायिक उपकरणों को छूट दी गई है

California की राज्य और स्थानीय सरकारें अधिकांश माल की खुदरा बिक्री पर एक बिक्री कर वसूल करती हैं। बिक्री कर के हिस्से से राजस्व राज्य के मुख्य परिचालन खाते में जाता है। कर का यह हिस्सा तब नहीं लिया जाता है जब कुछ व्यवसाय विनिर्माण और अनुसंधान और विकास जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण खरीदते हैं। हमारा अनुमान है कि यह "विनिर्माण छूट" वर्तमान में \$250 लाख वार्षिक

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

द्वारा विश्लेषण जारी है

से राज्य बिक्री कर राजस्व को कम करती है। यह छूट जुलाई 1, 2030 तक प्राधिकृत है।

प्रस्ताव

कैप-और-व्यापार राजस्व को खर्च करने के लिए अस्थायी उच्च विधान मत की आवश्यकता का निर्माण करता है। इस अधिनियम की आवश्यकता है कि जनवरी 1, 2024 को शुरू कैप-एंड-ट्रेड राजस्व को बजाय GGRF में जमा करने के एक नई राज्य निधि में जमा किया जाए, जिसे ग्रीनहाउस गैस कटौती आरक्षित निधि (रिजर्व फंड) कहा जाता है। ये जमाराशियाँ एक बिल की प्रभावी तारीख तक जारी रहेगीं जो: (1) उस आरक्षित निधि से धन खर्च करती है और (2) विधान सभा के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई मतदान के साथ पारित हो जाती हैं (वर्तमान में आवश्यक बहुमत के मतदान के विरुद्ध)। अधिनियम की यह भी एक आवश्यकता है कि आरक्षित निधि में से धन उसी सामान्य प्रकार के कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाए, जिन्हें जनवरी 1, 2024 को GGRF द्वारा वित्त-पोषित किया जा सकता है। बिल की प्रभावी तिथि के बाद, भविष्य के राजस्व को वापस GGRF में जमा किया जाएगा और विधान मंडल के बहुमत से खर्च किया जा सकता है।

विनिर्माण छूट को निलंबित करता है, जब तक कैप-और-ट्रेड राजस्व को खर्च किया जाता है। यह अधिनियम जनवरी 1 2024 में विनिर्माण छूट को निलंबित कर सकता है। कर तब लिया जाता है जब व्यवसाय विनिर्माण और अनुसंधान और विकास जैसी चीजों के लिए कुछ उपकरण खरीदते हैं। ये निलंबन एक बिल की प्रभावी तारीख तक जारी रहेगा जो: (1) उस आरक्षित निधि से धन खर्च करती है और (2) दो-तिहाई विधायी वोट के साथ पारित होती है।

वित्तीय प्रभाव

2024 से बिक्री कर राजस्व में संभावित अस्थायी वृद्धि। यह अधिनियम 2024 से शुरू विनिर्माण छूट को निलंबित कर सकता है। राज्य अतिरिक्त बिक्री कर राजस्व उत्पन्न करेगा, जबकि विनिर्माण छूट को निलंबित कर दिया गया है। अतिरिक्त राजस्व की राशि उस समय पर निर्भर करती है जब विधान मंडल ने दो-तिहाई मतदान के साथ आरक्षित निधि से पैसा खर्च करने की मंजूरी दी हो। अगर विधान मंडल ने 2024 के शुरुआती दिनों में पैसा खर्च करने की मंजूरी दी है, तो इसमें

चित्र 1

अनुमानित 2017-18 कैप-एंड-ट्रेड व्यय^अ (मिलियन में)

कार्यक्रम	राशि
कम उत्सर्जन वाले वाहनों और उपकरणों के लिए प्रोत्साहन राशि	\$810
तेज़-गति वाला रेलमार्ग	730
परिवहन के साधन के निकट सस्ता आवास	584
सार्वजनिक परिवहन	438
वानिकी एवं आग की रोकथाम	325
कृषि संबंधी उत्सर्जन का न्यूनीकरण	250
अन्य	187
कुल	\$3,324

^अ वर्ष 2017-18 में \$3 बिलियन राजस्व का अनुमान है। नीलामी के वास्तविक परिणाम के आधार पर राशि अधिक या कम हो सकती है।

बहुत कम या कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं होगा। परंतु यदि एक लंबी देरी हुई हो तो अतिरिक्त राज्य राजस्व सालाना कुछ सौ मिलियन डॉलर तक होगा।

वित्त-पोषित कार्यक्रमों के मिश्रण में संभव बदलाव। 2024 में आरंभ, दो-तिहाई मतदान की आवश्यकता, कम से कम अस्थायी रूप से, नीलामी के राजस्व से वित्त-पोषित राज्य और स्थानीय कार्यक्रमों का मिश्रण बदल सकती है, उसकी तुलना में जो अन्यथा हो सकता है। कोई भी परिवर्तन विधान मंडल के भविष्य की रचना और खर्च की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा, जो अज्ञात हैं। नतीजतन, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से राज्य और स्थानीय सरकारी कार्यक्रमों को कम या ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है।

मुख्य रूप से इस उपाय के समर्थन या विरोध करने के लिए बनाई गई समितियों की सूची के लिए <http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2018-ballot-measure-contribution-totals/> देखें। समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए <http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/jun-18-primary.html> देखें।

यदि आप राज्य के उपाय के संपूर्ण टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि लेने के इच्छुक हैं, तो कृपया राज्य सचिव को (888) 345-2692 पर कॉल करें या आप vigfeedback@sos.ca.gov पर ईमेल कर सकते हैं और एक प्रतिलिपि बिना किसी भी कीमत पर आप को भेज दी जाएगी।